


वैक्सीन तथ्य

# COVID-19 टीका

प्रजनन क्षमता या  
गर्भधारणा को नुकसान  
नहीं पहुंचाता है



तथ्य

टीके प्रजनन क्षमता को  
प्रभावित नहीं करते हैं  
इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण  
नहीं है कि COVID-19 के टीके  
पुरुष या महिला प्रजनन क्षमता को  
प्रभावित करते हैं



टीके गर्भावस्था में  
सुरक्षित हैं



COVID-19 टीका प्राप्त करने के  
बाद गर्भपात की दरों में वृद्धि नहीं  
होती है।

तथ्य

तथ्य

**COVID-19** वायरस प्रजननक्षमता को प्रभावित कर सकता है

कोई भी संक्रमण जिसमें बुखार शामिल है, जैसे कि COVID-19 वायरस के कारण होने  
वाला संक्रमण, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, वृषण सूजन, शुक्राणु वाहिनी में सूजन और  
पुरुषों में वृषण दर्द के साथ-साथ महिलाओं में ओव्यूलेशन की समस्याओं का कारण बन  
सकता है।



मिथक

टीका प्रजनन क्षमता और  
गर्भावस्था को नुकसान  
पहुंचाता है



COVID-19 वायरस के खिलाफ टीका  
लगवाकर अपनी प्रजनन क्षमता या  
अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा करें!



इस संसाधन की रचना को U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Community Living, Administration on Intellectual and Developmental Disabilities से अनुदान #90DDUC0036-05-00 द्वारा वित्त पोषित किया गया था। दिसंबर 2021।

स्रोत:

Watson, R. E., Nelson, T. B., & Hsu, A. L. (2021, अगस्त 8) *Fertility considerations: The Covid-19 disease may have a more negative impact than the Covid-19 vaccine, especially among men.* Fertility and Sterility। सितंबर 20, 2021, को [https://www.fertstertdialog.com/posts/fertility-considerations-the-covid-19-disease-may-have-a-more-negative-impact-than-the-covid-19-vaccine-especially-among-men?room\\_id=871-covid-19](https://www.fertstertdialog.com/posts/fertility-considerations-the-covid-19-disease-may-have-a-more-negative-impact-than-the-covid-19-vaccine-especially-among-men?room_id=871-covid-19) से पुनः प्राप्त किया गया।